



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 वैशाख, 1940 (श०)

संख्या- 445 राँची, सोमवार, 23 अप्रैल, 2018 (ई०)

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

अधिसूचना

18 अप्रैल, 2018

संख्या:-03नि0/न0-11/2017 रा0नि0आ0 850 .. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ का पत्रांक-406/न0प0नि0 दिनांक 16 अप्रैल, 2018 द्वारा आयोग को प्राप्त प्रतिवेदन पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हुआ है कि 19-कपाली नगर परिषद् (वर्ग-ख) के उपाध्यक्ष पद के एक अभ्यर्थी का निर्वाचन प्रतीक की अनुकृति मतपत्र पर त्रुटिपूर्ण अंकित हो गयी है। फलस्वरूप उक्त प्रक्रिया संबंधी गलती के कारण निर्वाचन प्रक्रिया दूषित हो गयी है। उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-58(1)(ख) एवं धारा-58(2)(क) तथा झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम-71 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, 19-कपाली नगर परिषद् (वर्ग-ख) के उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों के मतदान को रद्द/प्रत्यादिष्ट (countermand) करता है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

ह०/-(अस्पष्ट),

सचिव

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 445 -- 50